



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 300]
No. 300]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 1984/श्रावण 10, 1906
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1984/SRAVANA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1981

अधिसूचना

सांकांनि० 583(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ड की उपधारा (4ख) के माध्यम से धारा 642 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड (बैंच) नियम, 1975 का (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम कहा गया है) और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (बैंच) संशोधन नियम, 1984 है।

*टिप्पण : कंपनी विधि बोर्ड (बैंच) नियम, 1975 भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं० सांकांनि० 583 (अ) तारीख 10-12-75 के द्वारा प्रकाशित किए गए।

वा. 2 में उनका निम्नलिखित अधिसूचना सं० द्वारा संशोधन किया गया :

सांकांनि० 601 तारीख 2-5-77

सांकांनि० 122(अ) तारीख 21-8-78

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों के नियम 2 में, खंड (अ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(अ क) "एकाधिकार अधिनियम" से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) अभिप्रेत है ;"

3. उक्त नियमों के नियम 1 में "धारा 2 के खंड (18क) के स्पष्टीकरण" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "एकाधिकार अधिनियम की धारा 2क" शब्द, अक्षर और अक्षर रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 11 में,—

(1) उपनियम (2) की सारणी में, कम सत्यापक 1 में संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर,—

(क) स्तम्भ 1 में, "धारा 2 के खंड (18क) के स्पष्टीकरण" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अक्षरों के स्थान पर "एकाधिकार अधिनियम की धारा 2क" शब्द, अक्षर और अक्षर रखे जाएंगे,

(ख) स्तम्भ 2 में "उक्त प्रश्न का अवधारण कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आदि किसे समूह के भीतर गठन करने हैं या उनके संगत आते हैं" शब्दों के स्थान पर "एकाधिकार अधिनियम की धारा 2क के उपबंधों के अनुसरण में, समूह, संगतम्बद्ध या उन प्रश्नों के किसे प्रश्न का अवधारण" शब्द रखे जाएंगे।

(2) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) फीस का संवाय—इस नियम के अधीन संवेद्य फीस 104—अन्य साधारण आर्थिक सेवाएँ—केन्द्रीय सरकार और कंपनी विधि बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन उसे किए गए आवेदनों/अर्जियों पर वसूल की गई फीस, लेखा धीरे के प्रतर्गत अदा करने के लिए भारत के लोक खाते में पंजाब नेशनल बैंक की निम्नलिखित शाखाओं में संदेस की जाएगी।

क्रम सं०	नगर	पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का नाम
1.	अहमदाबाद	आश्रम रोड
2.	इलाहाबाद	सिविल लाइन्स
3.	बंगलोर	नगर शाखा
4.	मुम्बई	फिरोज शाह मेहता रोड
5.	कलकत्ता	आबोर्ने रोड
6.	चण्डीगढ़	सेक्टर 17
7.	कटक	कटक
8.	दिल्ली	बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली
9.	एनांकुलम	एनांकुलम
10.	ग्वालियर	नया बाजार
11.	हैदराबाद	बैंक स्ट्रीट
12.	जयपुर	एम आई रोड
13.	जोधपुर	रत्नाग्र कालोनी
14.	जालन्धर	सिविल लाइन्स
15.	कानपुर	स्वर्ण नगर
16.	मद्रास	माउन्ट रोड
17.	नागपुर	किंग्स
18.	पणजी	पिण्डेकर रोड
19.	पटना	बॉरिंग रोड
20.	शिलांग	शिलांग
21.	श्रीनगर	अमीरकादल

(3) उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(4) इस नियम के अधीन संवेद्य फीस भी वेतन और लेखा अधिकारी, कंपनी कार्य विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में लिखे गए बैंक ड्राफ्ट द्वारा संदेस की जा सकेगी।”

5. उक्त नियमों के नियम 17 के उपनियम (1) में “अधिनियम” शब्द के स्थान पर “अधिनियम या एकाधिकार अधिनियम” शब्द रखे जायेंगे।

[फा० सं० 5/4/84/मी० एल० 5]

सं० म० दृगढ़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 1st August, 1984

NOTIFICATION

G.S.R. 583 (E):— In exercise of the powers conferred by section 642, read with sub-section (4B) of section 10E, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the *Company Law Board (Bench) Rules, 1975, (hereinafter called “the said rules”), namely :—

1. (1) These rules may be called the Company Law Board (Bench) Amendment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the said rules, after clause (j), the following clause shall be inserted, namely :—

“(ja) “The Monopolies Act” means the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969);”

3. In rule 4 of the said rules, for the words, brackets figures and letter, “Explanation to clause (18A) of Section 2”, the words, figure and letter, “Section 2A of the Monopolies Act” shall be substituted.

4. In rule 11 of the said rules,—

(1) in the Table to sub-rule (2), for the entries relating to Serial Number 1,—

(a) For the words, brackets, figures and letter, “Explanation to Clause (18A) of Section 2” in column 1, the words, figure and letter, “Section 2A of the Monopolies Act” shall be substituted;

(b) For the words, “Determination of the question whether two or more individuals, etc., constitute or fall within a group” in column 2, the words “Determination of any question of group, inter-connection or same management in accordance with the provisions of Section 2A of the Monopolies Act” shall be substituted.

(2) For sub-rule (3), the following shall be substituted namely :—

“(3) Payment of fees.— Fees payable under this rule shall be paid into the Public Account of India at the following branches of the Punjab National Bank for credit under the Head of Account-104 Other General Economic Services. Fees realised by the Central Government and Company Law Board on applications/petitions made to it under the Companies Act, 1956, namely :—

Sl. No.	City	Name of the Branch of the Punjab National Bank
1	2	3
1.	Ahmedabad	Ashram Road
2.	Allahabad	Civil Lines
3.	Bangalore	City Branch
4.	Bombay	Phiroz Shah Mehta Road

*NOTE :—The Company Law Board (Bench) Rules, 1975, published vide Notification No. G.S.R. 583(E) dated the 10/12/75 Part II, Sec., 3, Sub-sec (i) of the Gazette of India (Extraordinary) dt. 12-12-75. Subsequently amended by Notification Nos.

G.S.R. 601 dt. 2-5-77.

G.S.R. 42(E) dt. 21-8-78.

1	2	3	1	2	3
5. Calcutta		Brabourne Road	19. Patna		Boring Road
6. Chandigarh		Sector-17	20. Shillong		Shillong
7. Cuttack		Cuttack	21. Srinagar		Amtrakadal
8. Delhi		Barakhamba Road, New Delhi			
9. Ernakulam		Ernakulam	(3) After sub-rule (3), the following shall be inserted, namely :—		
10. Gwalior		Naya Bazar	“(4) The fees payable under this rule may also be paid by means of a Bank Draft drawn in favour of Pay and Accounts Officer, Department of Company Affairs. New Delhi.”		
11. Hyderabad		Bank Street	(5) In sub rule (1) to rule 17 of the said rules for the word “Act”, the words “Act or the Monopolies Act” shall be substituted.		
12. Jaipur		M.I. Road			
13. Jodhpur		Ratnada Colony			
14. Jullundur		Civil Lines			
15. Kanpur		Swaroop Nagar			
16. Madras		Mount Road			
17. Nagpur		Kingsway			
18. Panaji		Piffurlakar Road			

[F. No. 5/4/84-CL. V]
S. M. DUGAR, Jt. Secy.

